



प्रेस नोट

दिनांक- 01.09.2022

थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर खाते से पैसे निकाल लेने की घटना कारित करने वाले 02 नफर शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया!

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद कानपुर देहात के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अपराध पर अंकुश लगाये जाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी अकबरपुर के कुशल नेतृत्व में थाना अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर खाते से पैसे निकाल लेने की घटना कारित करने वाले 02 नफर शातिर चोरों को दिनांक 01.09.2022 को **05 अदद एटीएम कार्ड व 01 अदद आधार कार्ड एवं 3400 रुपये** सहित गिरफ्तार किया गया है।

विदित हो कि दिनांक 18.08.2022 को वादी हरमोहन सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी ग्राम सुहुठा थाना डेरापुर कानपुर देहात द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 13.08.2022 को अकबरपुर कस्बा में माती रोड पर स्थित इंडीकैश एटीएम बूथ से हरमोहन सिंह ने अपने एटीएम से 1500/-रु० निकाले, परन्तु मशीन में एटीएम कार्ड फंस जाने के कारण वहीं पर मौजूद एक लड़के ने हरमोहन का एटीएम मशीन से निकालने की बात कहकर मशीन के पास आया एटीएम कार्ड दे दिया। दिनांक 16.08.2022 को आवेदक द्वारा बैंक से पैसा निकालने गया तो पता चला की उसके खाता में पैसा नहीं है जानकारी करने पर पता चला कि आवेदक के खाते से दिनांक 13.08.22 से 14.08.22 के मध्य 23400/- रुपये एटीएम कार्ड से निकल जाने की बात अंकित थी। जिसकी सूचना पर थाना अकबरपुर पर मु०अ०सं०- 555/22 धारा 420 भा०द०वि० बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.विकास पुत्र नारेन्द्र निवासी नारायणपुरवा थाना अकबरपुर कानपुर देहात, 2. राकेश पुत्र राजू निवासी नारायणपुरवा थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात को मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक- 01.09.2022 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के कब्जे से 05 अदद एटीएम कार्ड, 01 अदद आधार कार्ड व 3400 रुपये बरामद हुआ। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

घटना कारित करने का तरीका- पूँछताछ में अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि वह एटीएम से पैसा निकालने वाले लोगों के पीछे लाइन में लग जाते थे और लाइन में लगे लोगों को धक्का दे देते थे जिससे एटीएम नीचे गिर जाता था और उसी समय हम लोग अपना एटीएम गिरा देते थे और एटीएम बदल लेते थे तत्पश्चात एटीएम धारक जब कार्ड को लगाते थे तब उनका पैसा नहीं निकलता था तो हम लोग उनका पैसा निकालने के बहाने उनसे पिन कोड पूँछ लेते थे और उनके चले जाने के बाद उनके एटीएम कार्ड से हम लोग पैसा निकाल लेते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

- 1.विकास पुत्र नारेन्द्र उम्र 20 वर्ष निवासी नारायणपुरवा थाना अकबरपुर कानपुर देहात
- 2.राकेश पुत्र राजू उम्र 18 वर्ष निवासी नारायणपुरवा थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात

बरामदगी-

05 अदद एटीएम, 01 अदद आधार कार्ड व 3400 रुपये।

अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं०- 555/22 धारा 420 भा०द०वि० थाना अकबरपुर कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० शोभित कटियार चौकी प्रभारी कस्बा अकबरपुर कानपुर देहात
2. हेड का० 584 राजू त्यागी चौकी कस्बा थाना अकबरपुर कानपुर देहात
- 3 का० 644 अमित कुमार चौकी कस्बा थाना अकबरपुर कानपुर देहात

**मीडिया सेल
जनपद कानपुर देहात।**